



“हर काम देश के नाम”  
रक्षा लेखा विभाग (र.ले.वि.) मुख्यालय  
उलन बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी -110010  
DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT (DAD) HEADQUARTERS  
Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt- 110010

75  
Azadi Ka  
Amrit Mahotsav

No. Estt./Pay Tech/19015/Govt. Orders/TA/DA/LTC/Medical

Dated: 01.07.2022

सेवा में,

सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक/प्र.ले.नि.(फै.)  
All PCsDA/CsDA/PCA (Fys)  
(Through CGDA Website)

**Sub:** Travelling Allowance on transfer to/from North Eastern Region, Union Territories of Andaman and Nicobar, Lakshadweep Islands and Ladakh-in respect of Central Government employees.

उपरोक्त विषय पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, के दिनांक 16.06.2022 के का.जा सं- 19030/1/2017-E.IV, की प्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं सख्त अनुपालन हेतु प्रेषित की जाती है।

A copy of Ministry of Finance, Department of Expenditure Office Memorandum No.19030/1/2017-E.IV dated 16.06.2022, on the above subject is forwarded herewith for your information, guidance and strict compliance please.

*राजीव*

(राजीव रंजन कुमार)

रक्षा लेखा व. उप महानियंत्रक (स्थापना)

संलग्नक: यथोपरि

प्रतिलिपि :-

1. स्थापना – वेतन एवं भत्ते (स्थानीय)।
2. लेखा परीक्षा स्थानीय (समन्वय)।
3. लेखा अनुभाग (स्थानीय)।
4. आई .टी .& एस रक्षा लेखा महानियंत्रक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु -: (स्थानीय) विंग .।
5. पुस्तकालय अनुभाग (स्थानीय)।
6. मास्टर नोट बुक (वेतन तकनीकी -स्थापना)।

-६०-

(प्रदीप कुमार)

लेखा अधिकारी (स्थापना)

369

No. 19030/1/2017-E.IV  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Expenditure  
\*\*\*

North Block, New Delhi  
Dated 16<sup>th</sup> June, 2022

OFFICE MEMORANDUM

**Subject: Travelling Allowance on transfer to/from North-Eastern Region, Union Territories of Andaman & Nicobar, Lakshadweep Islands and Ladakh - in respect of the Central Government employees.**

The undersigned is directed to refer to Para 3 (iii) of this Department's OM No. 19030/1/2017-E.IV dated 13.07.2017 regarding Travelling Allowance on implementation of recommendations of 7<sup>th</sup> CPC, wherein it had been mentioned that production of receipt/vouchers is mandatory in r/o transfer to North-East Region, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep and Ladakh.

2. Several references have been received in this Department seeking clarification that in case the officer is transferred from North East Region to other part of India or vice-versa and the family of the Government employee does not accompany him whether production of receipt/vouchers is mandatory to claim 1/3<sup>rd</sup> amount of entitlement of transportation of personal effects..

3. The matter has been considered in this Department. It has been decided that on transfer to North East Region, Union Territories of Andaman & Nicobar, Lakshadweep Islands and Ladakh or vice-versa, the condition regarding production of receipt/voucher will be as under:

(a) If the family of the Government employee does not accompany him on transfer to /from these areas, the employee is entitled to carry personal effects upto 1/3<sup>rd</sup> of his entitlement and production of receipt/voucher is **not mandatory** to claim 1/3<sup>rd</sup> of his entitlement for transportation of personal effects.

(b) If the family of the Government employee accompanies him on transfer to/from these areas, the employee is entitled to the admissible cost of transportation of personal effects and production of receipt/voucher is **mandatory** to claim admissible amount as per his entitlement for transportation of personal effects.

4. This order shall be effective from date of issuance of this OM. Past cases already settled shall not be re-opened.

5. This is issued with the approval of Finance Secretary & Secretary (Expenditure).

  
(Nirmala Dev)  
Director

To,

All Ministries and Departments of the Govt. of India etc. as per standard distribution list.

Copy to : C&AG and U.P.S.C. etc. as per standard endorsement list.